

Exam Level	: SSC CGL Tier 1
Test Date	: 26 Sep 2025
Test Time and Shift	: 09:00 AM (Shift-1)

Correct Answer Selected Wrong Option Selected Correct Option Not Answered

[Click Here for PART-A](#) [Click Here for PART-B](#) [Click Here for PART-C](#) [Click Here for PART-D](#)

PART-A (General Intelligence and Reasoning)

Q.No: 1 [Click Here to Challenge Question No.: 1](#)

An entrepreneurship summit in Ahmedabad was on 10th January. Kolkata hosted it five days later. When was the Kolkata event?
 अहमदाबाद में उद्यमिता समिट 10th जनवरी को हुआ था। कोलकाता में पांच दिन बाद इसका आयोजन हुआ। कोलकाता में यह कार्यक्रम कब हुआ था?

5th Jan
 5th जनवरी
 15th Jan
 15th जनवरी
 12th Jan
 12th जनवरी
 20th Jan
 20th जनवरी

Q.No: 2 [Click Here to Challenge Question No.: 2](#)

Choose the address that is the same as the one given below.
 Room 405, PG Block, NIT Trichy, Thuvakudi, Tamil Nadu - 620015
 यह पता चुनें जो नीचे दिए गए पते के समान हो।

Room 405, PG Block, NIT Trichy, Thuvakudi, Tamil Nadu - 620015
 Room 405, PG Block, NIT Trichy, Thuvakudi, Tamil Nadu - 620015
 Room 405, PG Block, NIT Trichy, Thuvakudi, Tamil Nadu - 620015
 Room 405, PG Block, NIT Trichy, Thuvakudi, Tamil Nadu - 620015
 Room 405, PG Block, NIT Trichy, Thuvakoodi, Tamil Nadu - 620015
 Room 405, UG Block, NIT Trichy, Thuvakudi, Tamil Nadu - 620015
 Room 405, UG Block, NIT Trichy, Thuvakudi, Tamil Nadu - 620015

Q.No: 3 [Click Here to Challenge Question No.: 3](#)

If 2 # 3 = 13, 3 # 4 = 25, then 4 # 5 = ?
 अगर 2 # 3 = 13, 3 # 4 = 25, तो 4 # 5 = ?

37
 37
 41
 41
 39
 39
 36
 36

Q.No: 4 [Click Here to Challenge Question No.: 4](#)

If A & B = A × B - A, what is 7 & 5?
 अगर A & B = A × B - A, तो 7 & 5 क्या है?

28
 28
 35
 35
 30
 30
 25
 25

Q.No: 5 [Click Here to Challenge Question No.: 5](#)

Which two signs should be swapped to correct this equation?
 20 + 5 + 6 × 2 - 4 = 18
 इस समीकरण को सही करने के लिए किन दो चिह्नों को आपस में बदलना होगा?

20 + 5 + 6 × 2 - 4 = 18
 + and ×
 + और ×
 + and -
 + और -
 + and =
 + और =
 + and ×
 + और ×

Q.No: 6 [Click Here to Challenge Question No.: 6](#)

Find the ODD one out.
 विषम चुनें।

4321
 4321
 5432
 5432
 6543
 6543
 1234
 1234

Q.No: 7 [Click Here to Challenge Question No.: 7](#)

Identify the odd city.
 विषम शहर की पहचान करें।

Thiruvananthapuram
 तिरुवनंतपुरम
 Imphal
 इम्फाल
 Guwahati
 गुवाहाटी
 Ranchi
 रांची

Q.No: 8 [Click Here to Challenge Question No.: 8](#)

If we increase each even digit by '1' and decrease each odd digit by '1' in the number '7846921453' and then arrange all the number in descending order, then what is the sum of the last five digits from the right end after the rearrangement?
 अगर हम संख्या '7846921453' में प्रत्येक सम अंक को '1' से बढ़ा दें और प्रत्येक विषम अंक को '1' से घटा दें और फिर सभी संख्याओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें, तो पुनर्व्यवस्था के बाद दाहिने छोर से अंतिम पांच अंकों का योग क्या है?

35
 35
 32
 32
 38
 38
 34
 34

Q.No: 9 [Click Here to Challenge Question No.: 9](#)

Solve:
 DF : GI :: KM : ?
 हल करें:

DF : GI :: KM : ?
 MN
 MN
 NP
 NP
 OP
 OP
 QR
 QR

Q.No: 10 [Click Here to Challenge Question No.: 10](#)

Choose the number that fits the analogy: 3 : 24 :: 5 : ?
 वह संख्या चुनें जो सादृश्य के अनुरूप हो: 3 : 24 :: 5 : ?

123
 123
 120
 120
 122
 122
 124
 124

Q.No: 11 [Click Here to Challenge Question No.: 11](#)

Read the following statement carefully and identify the action that follows.
 Statement: A recent study shows rising childhood obesity.
 Course of Action:
 1. Ban all junk food advertisements.
 2. Make physical activity mandatory in schools.
 निर्णयलिखित कथन को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उसके बाद की कार्यवाही की पहचान करें।

कथन: एक हाल ही में हुए अध्ययन से पता चलता है कि बच्चों में मोटापा बढ़ रहा है।
 कार्यवाही:
 1. सभी अंक कुच विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाएं।
 2. स्कूलों में शारीरिक गतिविधि अनिवार्य करें।

Only 2 follows
 केवल 2 अनुसरण करते हैं
 Only 1 follows
 केवल 1 अनुसरण करता है
 Neither follows
 कोई भी अनुसरण नहीं करता है
 Both follow
 दोनों अनुसरण करते हैं

Q.No: 12 [Click Here to Challenge Question No.: 12](#)

Directions: Study the following information carefully and answer the questions based on it.
 There are six people A, B, C, D, E and F who live in a six-storey building, the lowest floor is numbered 1 and the highest is numbered 6. E lives on an even-numbered floor. There are 2 floors between E and C and 1 floor between E and F. C lives on the first floor. F doesn't live immediately above C. There are 2 people between A and D. D doesn't live on an odd floor.
 निर्देश: निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

छह व्यक्ति A, B, C, D, E और F एक छह मंजिला इमारत में रहते हैं, सबसे निचली मंजिल का क्रमांक 1 है और सबसे ऊंची मंजिल का क्रमांक 6 है। E एक सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है। E और C के बीच 2 मंजिलें हैं और E और F के बीच 1 मंजिल है। C पहली मंजिल पर रहता है। F, C के ठीक ऊपर नहीं रहता है। A और D के बीच 2 मंजिलें हैं। D विषम संख्या वाली मंजिल पर नहीं रहता है। B से 2 मंजिल नीचे कोन रहता है?

A
 A
 B
 B
 D
 D
 C
 C

Q.No: 13 [Click Here to Challenge Question No.: 13](#)

Read the following statement carefully and identify the conclusion that follows.
 Statement:
 No apple is blue. All oranges are apples.
 Conclusions:
 I. No orange is blue.
 II. Some apples are oranges.
 निर्णयलिखित कथन को ध्यानपूर्वक पढ़ें और निष्कर्ष निकालें।

कथन:
 कोई भी सेब नीला नहीं है। सभी संतरे सेब हैं।
 निष्कर्ष:
 I. कोई संतरा नीला नहीं है।
 II. कुछ सेब संतरे हैं।

Only I follows
 केवल I अनुसरण करता है
 Only II follows
 केवल II अनुसरण करता है
 Both I and II follow
 I और II दोनों अनुसरण करते हैं
 Neither I nor II follows
 न तो I और न ही II अनुसरण करता है

Q.No: 14 [Click Here to Challenge Question No.: 14](#)

Read the following statement carefully and identify the conclusion that follows.
 Statement:
 All bags are pens. Some pens are not pencils. No pencil is a scale.
 Conclusions:
 I. Some bags are not scales.
 II. All scales are pens.
 निर्णयलिखित कथन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसके बाद अपने वाले निष्कर्ष की पहचान कीजिए।

कथन:
 सभी थैले पेन हैं। कुछ पेन पेंसिल नहीं हैं। कोई भी पेंसिल स्केल नहीं है।
 निष्कर्ष:
 I. कुछ थैले स्केल नहीं हैं।
 II. सभी स्केल पेंसिल हैं।

Only I follows
 केवल I अनुसरण करता है
 Only II follows
 केवल II अनुसरण करता है
 Both I and II follow
 I और II दोनों अनुसरण करते हैं
 Neither I nor II follows
 न तो I और न ही II अनुसरण करता है

Q.No: 15 [Click Here to Challenge Question No.: 15](#)

Find the odd one out:
 Paris, Rome, Berlin, Madrid, Vienna, Brussels, Alexandria, Amsterdam
 इनमें से विषम चुनें:

पेरिस, रोम, बर्लिन, मैड्रिड, वियना, ब्रुसेल्स, अलेक्जेंड्रिया, अमस्टर्डम
 रोम
 रोम
 Vienna
 वियना
 Alexandria
 अलेक्जेंड्रिया
 Amsterdam
 अमस्टर्डम

Q.No: 16 [Click Here to Challenge Question No.: 16](#)

What comes next in the series?
 A, C, F, J, ?
 निर्णयलिखित श्रृंखला में अगले स्थान पर कौन सा विकल्प आएगा?

A, C, F, J, ?
 J
 J
 I
 I
 H
 H
 O
 O

Q.No: 17 [Click Here to Challenge Question No.: 17](#)

What is the next number in the series?
 100, 50, 25, ____
 निर्णयलिखित श्रृंखला में अगले स्थान पर कौन सी संख्या होगी?

100, 50, 25, ____
 10
 10
 12.5
 12.5
 13.5
 13.5
 14
 14

Q.No: 18 [Click Here to Challenge Question No.: 18](#)

In a certain code, "CLEAN" is written as "BKDZM".
 What is the code for GLASS?
 एक निश्चित कोड में, "CLEAN" को "BKDZM" लिखा जाता है।
 GLASS का कोड क्या है?

FKZRR
 FKZRR
 FKVRR
 FKVRR
 FJRRR
 FJRRR
 FKZOS
 FKZOS
 FKZOS

Q.No: 19 [Click Here to Challenge Question No.: 19](#)

Complete the series.
 2, 4, 7, 11, 16, ?
 निर्णयलिखित श्रृंखला को पूरा करें।

2, 4, 7, 11, 16, ?
 22
 22
 20
 20
 24
 24
 24
 21
 21

Q.No: 20 [Click Here to Challenge Question No.: 20](#)

What comes next?
 C3, V24, O4, W23, ?
 निर्णयलिखित श्रृंखला में अगले स्थान पर कौन सा विकल्प आएगा?

C3, V24, O4, W23, ?
 V22
 V22
 E5
 E5
 F6
 F6
 U21
 U21

Q.No: 21 [Click Here to Challenge Question No.: 21](#)

In the following examples, a number is coded as three digits — representing the remainders when the number is divided by 3, 7, and 11, respectively.
 Examples: Example 1: 53 → (53 ÷ 3 = 17 R2, 53 ÷ 7 = 7 R4, 53 ÷ 11 = 4 R9) → Code: 2, 4, 9
 Example 2: 68 → (68 ÷ 3 = 22 R2, 68 ÷ 7 = 9 R5, 68 ÷ 11 = 6 R2) → Code: 2, 5, 2
 By following this method, which is the least number which would have the code - 2,2,2?
 निर्णयलिखित उदाहरणों में, एक संख्या को तीन अंकों के रूप में कोड किया गया है - जो संख्या को क्रमशः 3, 7 और 11 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल को दर्शाते हैं।

उदाहरण: उदाहरण 1: 53 → (53 ÷ 3 = 17 R2, 53 ÷ 7 = 7 R4, 53 ÷ 11 = 4 R9) → कोड: 2, 4, 9
 उदाहरण 2: 68 → (68 ÷ 3 = 22 R2, 68 ÷ 7 = 9 R5, 68 ÷ 11 = 6 R2) → कोड: 2, 5, 2
 निम्नलिखित उदाहरणों में, एक संख्या को तीन अंकों के रूप में कोड किया गया है - जो संख्या को क्रमशः 3, 7 और 11 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल को दर्शाते हैं।

223
 223
 323
 323
 233
 233
 243
 243

Q.No: 22 [Click Here to Challenge Question No.: 22](#)

Find the missing number: 100 : 1000 :: 1000 : ?
 लुप्त संख्या ज्ञान करें: 100 : 1000 :: 1000 : ?

416
 416
 524
 524
 512
 512
 729
 729

Q.No: 23 [Click Here to Challenge Question No.: 23](#)

A doctor is treating a patient who refuses to take life-saving medication due to personal beliefs. What should the doctor do?
 एक डॉक्टर एक ऐसे मरीज का इलाज कर रहा है जो अपनी निजी मान्यताओं के कारण जीवन रक्षक दवा लेने से इनकार कर रहा है। डॉक्टर को क्या करना चाहिए?

Respect the patient's choice and document refusal.
 बिना किसी हस्तक्षेप के रोगी की पसंद का सम्मान करें।
 Attempt to convince the patient and document refusal.
 रोगी को परामर्श देने और इनकार को दस्तावेज में दर्ज करने का प्रयास करें।
 Force medication for patient safety.
 रोगी की सुरक्षा के लिए दवा देना अनिवार्य करें।
 Ignore the patient and proceed with another case.
 मरीज की उपेक्षा करें और किसी अन्य मामले पर अगले बढ़ें।

Q.No: 24 [Click Here to Challenge Question No.: 24](#)

A man is 4 times as old as his daughter. In 20 years, he will be twice as old as she will be then. How old is the daughter now?
 एक आदमी अपनी बेटी से चार गुना बड़ा है। 20 साल बाद, उसकी उम्र उसकी बेटी से दोगुनी हो जाएगी। बेटी अभी कितनी साल की है?

10
 10
 8
 8
 12
 12
 9
 9

Q.No: 25 [Click Here to Challenge Question No.: 25](#)

If in a code, MANGO is written as NZOHO, then how is APPLE written?
 यदि किसी कोड में MANGO को NZOHO लिखा जाता है, तो APPLE को किस प्रकार लिखा जाएगा?

BQOMG
 BQOMG
 BQOQG
 BQOQG
 BQQLF
 BQQLF
 BRQLF
 BRQLF
 BQQME
 BQQME

Exam Level	: SSC CGL Tier 1
Test Date	: 26 Sep 2025
Test Time and Shift	: 09:00 AM (Shift-1)

[Home](#) |
 [About Us](#) |
 [Wrong Question selected](#) |
 [Correct Option](#) |
 [Not Answered](#)

[Save / Print](#)

[Click Here for PART-A](#) |
 [Click Here for PART-B](#) |
 [Click Here for PART-C](#) |
 [Click Here for PART-D](#)

PART-B (General Awareness)

Q.No: 26 [Click Here to Challenge Question No. 26](#)

Expansionary fiscal policy is NOT characterised by:

विस्तारवादी राजकोषीय नीति की विशेषता यह नहीं है:

Decrease in personal taxes
व्यक्तिगत करों में कमी

Increase in government spending
सरकारी खर्च में बढ़ोतरी

Decrease in government spending
सरकारी खर्च में कमी

Decrease in business taxes
व्यापार करों में कमी

Not Answered

Q.No: 27 [Click Here to Challenge Question No. 27](#)

Which of the following is a main goal of the proposed Shukrayaan-1 mission by ISRO?

इसरो द्वारा प्रस्तावित शुक्रयान-1 मिशन का मुख्य लक्ष्य निम्नलिखित में से कौन सा है?

Investigate Venus' surface and atmosphere
शुक्र की सतह और वायुमंडल की जांच करना

Observe asteroids near Earth
पृथ्वी के निकट खूटस्टोरो का अवलोकन करना

Explore the rings of Saturn
शनि के रिंग्स का अन्वेषण करना

Study Mars' atmosphere
मंगल ग्रह के वातावरण का अध्ययन करना

Not Answered

Q.No: 28 [Click Here to Challenge Question No. 28](#)

Marco Polo, during his return from China, described the pepper trade in which region of India?

मार्को पोलो ने चीन से लौटते समय भारत के किस क्षेत्र में काली मिर्च के व्यापार का वर्णन किया था?

Konkan
कोंकण

Bengal
बंगाल

Malabar
मालाबार

Odisha
ओडिशा

Not Answered

Q.No: 29 [Click Here to Challenge Question No. 29](#)

Which government initiative aims to empower women through skill development and providing support for entrepreneurship?

किस सरकारी पहल का उद्देश्य कौशल विकास और उद्यमिता के लिए सहायता प्रदान करके महिलाओं को सशक्त बनाना है?

Beti Bachao Beti Padhao
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ

Mahila Shakti Kendra Scheme
महिला शक्ति केंद्र योजना

Pradhan Mantri Mudra Yojana (PMMY)
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई)

National Mission for Empowerment of Women
राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन

Not Answered

Q.No: 30 [Click Here to Challenge Question No. 30](#)

Two resistors, one with a resistance of 2 ohms and the other with a resistance of 4 ohms, are connected in parallel to a 6-volt battery.

What is the total current flowing through the circuit?

दो प्रतिरोधक, जिनमें से एक का प्रतिरोध 2 ओम है और दूसरे का प्रतिरोध 4 ओम है, 6 वोल्ट की बैटरी से समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। सर्किट से प्रवाहित होने वाला कुल करंट क्या है?

1 Amper
1 एम्पीयर

2 Amperes
2 एम्पीयर

3 Amperes
3 एम्पीयर

4.5 Amperes
4.5 एम्पीयर

Not Answered

Q.No: 31 [Click Here to Challenge Question No. 31](#)

The architectural style of ancient temples in Uttarakhand is primarily influenced by:

उत्तराखंड के प्राचीन मंदिरों की स्थापना शैली मुख्य रूप से निम्नलिखित से प्रभावित है:

North Indian Nagara style
उत्तर भारतीय नगरी शैली

Indo-Gothic style
इंडो-गोथिक शैली

Vesara style
वेसर शैली

Chalukyan style
चालुक्य शैली

Not Answered

Q.No: 32 [Click Here to Challenge Question No. 32](#)

How many gold medals did India win in 2022 Commonwealth Games?

2022 कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते?

15
15

22
22

26
26

20
20

Not Answered

Q.No: 33 [Click Here to Challenge Question No. 33](#)

Which of the following statements is INCORRECT regarding plants?

पौधों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?

Roots take water from the soil
जड़ें मिट्टी से पानी लेती हैं

Phloem tubes of cells specialized for water transport
जल परिवहन के लिए विशिष्ट कोशिकाओं की परतीय नलिकाएं

Chlorophyll, the green pigment in the leaves, absorbs light
पत्तियों में पाया जाने वाला हरित रंगद्रव्य क्लोरोफिल, प्रकाश को अवशोषित करता है

Stomata are the little pores in the leaves required for gaseous exchange
स्टोमेटा पत्तियों में पाए जाने वाले छोटे छिद्र होते हैं जो गैसीय विनिमय के लिए ज़रूरी होते हैं

Not Answered

Q.No: 34 [Click Here to Challenge Question No. 34](#)

What makes the Goa Civil Code distinct from other personal laws in India?

गोवा नागरिक संहिता भारत के अन्य व्यक्तिगत कानूनों से किस प्रकार भिन्न है?

It applies only to the Hindu community in Goa.
यह केवल गोवा के हिन्दू समुदाय पर लागू होता है।

It is a uniform civil code that applies to all communities regardless of religion.
यह एक समान नागरिक संहिता है जो धर्म की परवाह किए बिना सभी समुदायों पर लागू होती है।

It is based on British common law.
यह ब्रिटिश सामान्य कानून पर आधारित है।

It allows separate personal laws for different religions.
यह विभिन्न धर्मों के लिए अलग-अलग व्यक्तिगत कानूनों की अनुमति देता है।

Not Answered

Q.No: 35 [Click Here to Challenge Question No. 35](#)

_____ was commissioned into the Indian Navy in July 1985 and was Vice Chief of Naval Staff and Flag Officer Commanding-in-Chief of the Western Naval Command.

_____ को जुलाई 1985 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था और वे नौसेना टास्क के उप मुख और पश्चिमी नौसेना कमान के प्रथम ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ़ थे।

Admiral Karambir Singh
एडमिरल करमबीर सिंह

Admiral Sunil Lanba
एडमिरल सुनील लॉंबा

Admiral R. Hari Kumar
एडमिरल आर. हरि कुमार

Admiral Dinesh K. Tripathi
एडमिरल दिनेश के. त्रिपाठी

Not Answered

Q.No: 36 [Click Here to Challenge Question No. 36](#)

Which of the following is performed by women during the Sikkim weddings?

सिक्किम विवाह के दौरान महिलाओं द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य किया जाता है?

Maruni
मार्सुनी

Chhau
छाऊ

Gidha
गिद्धा

Lavani
लावणी

Not Answered

Q.No: 37 [Click Here to Challenge Question No. 37](#)

Which of the following options is the correct order of the prehistoric periods?

निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रागैतिहासिक काल का सही क्रम है?

Mesolithic, Paleolithic, Neolithic, Metal Age.
मध्यपाषाण, पुरापाषाण, नवपाषाण, धातु युग।

Paleolithic, Mesolithic, Neolithic, Metal Age.
पुरापाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण, धातु युग।

Neolithic, Mesolithic, Paleolithic, Metal Age.
नवपाषाण, मध्यपाषाण, पुरापाषाण, धातु युग।

Not Answered

Q.No: 38 [Click Here to Challenge Question No. 38](#)

Consider the following statements regarding the development of railways in India.

1. The first railway line was started in 1853 from Bombay to Pune.
2. The broad gauge covers the highest proportion of tracks of Indian railways.

Which of the statement(s) given is/are INCORRECT?

भारत में रेलवे के विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. पहली रेलवे लाइन 1853 में बॉम्बे से पुणे तक शुरू की गई थी।
2. ब्रॉड गेज भारतीय रेलवे के ट्रैक के उच्चतम अनुपात को कवर करता है।

दिए गए कथनों में से कौन सा गलत है?

1 only
केवल 1

2 only
केवल 2

Both 1 and 2
1 और 2 दोनों

Neither 1 nor 2
न तो 1, न ही 2

Not Answered

Q.No: 39 [Click Here to Challenge Question No. 39](#)

Temporary human settlements are usually built in which of the following regions?

अस्थायी मानव बस्तियाँ सामान्य तौर पर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में बनाई जाती हैं?

Cold desert regions
ठंडे रेगिस्तानी क्षेत्र

Deep forested areas
गहन वन क्षेत्र

Rugged mountain slopes
ऊबड़-खाबड़ पहाड़ी ढलानें

All of these
इन सब

Not Answered

Q.No: 40 [Click Here to Challenge Question No. 40](#)

Temperature and precipitation play an important role in determining the climate of a region. In this regard, the following statements regarding temperature variation in southern India:

1. Due to the presence of southern India in the tropical zone, the diurnal range of temperature is high.
2. Due to the continental influence, the annual mean range of temperature is greater in the coastal regions.

Which of the statements given above is/are CORRECT?

किसी क्षेत्र की जलवायु को निर्धारित करने में तापमान और वर्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस संबंध में, दक्षिणी भारत में तापमान विचलन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. उपकटबंधीय क्षेत्र में दक्षिणी भारत की उपस्थिति के कारण, तापमान की दैनिक सीमा ज्यादा है।
2. महाद्वीपीय प्रभाव के कारण, तटीय क्षेत्रों में तापमान की वार्षिक औसत सीमा ज्यादा है।

उपर्युक्त दिए गए कथनों में से कौन सा सही है/हैं?

1 only
केवल 1

2 only
केवल 2

Both 1 and 2
1 और 2 दोनों

Neither 1 nor 2
न तो 1, न ही 2

Not Answered

Q.No: 41 [Click Here to Challenge Question No. 41](#)

Which high jump technique involves bending the back, crossing the bar backwards, and landing on the shoulders?

कौन सी उंची कूद तकनीक में पीठ को झुकाना, बार को पीछे की ओर पार करना, तथा कंधों पर उतरना शामिल है?

Scissor Jump
कैंची कूद

Straddle Technique
स्ट्रैडल तकनीक

Western Roll
वेस्टर्न रोल

Fosbury Flop
फॉस्बरी फ्लॉप

Not Answered

Q.No: 42 [Click Here to Challenge Question No. 42](#)

Why did the British Parliament and Company authorities initially avoid abolishing Sati in India?

किस संसद और कंपनी अधिकारियों ने शुरू में भारत में सती प्रथा को समाप्त करने से परहेज क्यों किया?

They supported the practice as part of Indian tradition
उन्होंने इस प्रथा को भारतीय परंपरा का हिस्सा बताते हुए इसका समर्थन किया

They feared religious backlash and wanted local judgment
उन्हें धार्मिक प्रतिक्रिया का डर था और वे स्थानीय निर्णय चाहते थे

They lacked legal authority to pass social legislation
उनके पास सामाजिक कानून पारित करने का कानूनी अधिकार नहीं था

They believed only Hindu priests should make such decisions
उनका मानना ​​था कि केवल हिंदू पुजारीयों को ही ऐसे निर्णय लेने चाहिए

Not Answered

Q.No: 43 [Click Here to Challenge Question No. 43](#)

'The Inheritance of Loss' won the Booker Prize for which author?

'द इनहेरिटेन्स ऑफ लॉस' नामक पुस्तक के लिए लेखक को बुकर पुरस्कार मिला?

Anita Desai
अनीता देसाई

Kiran Desai
किरण देसाई

Jhumpa Lahiri
जुम्पा लाहिरी

Sunya Banerjee
सुन्या बानेर्जी

Chitra Banerjee
चित्रा बानेर्जी

Not Answered

Q.No: 44 [Click Here to Challenge Question No. 44](#)

Consider the following statements about Pranav Soorma's performance at the Khelo India Para Games 2023:

1. He broke his own previous club throw record of 30.01m.
2. He set a new Asian record with a throw of 33.54m.
Which of the above statements is/are correct?

कोनो निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. उन्होंने अपनी पुराना क्लब थ्रो रिकॉर्ड 30.01 मीटर का अपना ही पिछला करार करी रिकॉर्ड तोड़ दिया।
2. उन्होंने 33.54 मीटर के झरो के साथ एक नया एशियाई रिकॉर्ड बनाया।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

Only Statement 1 is correct
केवल कथन 1 सही है

Only Statement 2 is correct
केवल कथन 2 सही है

Both 1 and 2 are correct
1 और 2 दोनों सही हैं

Neither 1 nor 2 is correct
न तो 1 और न ही 2 सही है

Not Answered

Q.No: 45 [Click Here to Challenge Question No. 45](#)

Under which Article of the Indian Constitution is President's Rule in a State proclaimed?

भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जाती है?

352
352

356
356

360
360

371
371

Not Answered

Q.No: 46 [Click Here to Challenge Question No. 46](#)

Why is Matangini Hazra remembered in Indian history?

भारतीय इतिहास में मातंगिनी हाजरा को क्यों याद किया जाता है?

For writing a famous book
एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखने के लिए

For being a queen
रानी होने के लिए

For her bravery in the freedom struggle
स्वातंत्रता संग्राम में उनकी बहादुरी के लिए

For winning a legal case
कानूनी मामला जीतने के लिए

Not Answered

Q.No: 47 [Click Here to Challenge Question No. 47](#)

Which payload on the Mars Orbiter Mission (MOM) captured full-disk colour images of Mars?

मंगल ऑर्बिटर मिशन (एमओएम) पर किस पेलोड ने मंगल ग्रह की पूर्ण-डिस्क रंगीन छवियाँ कैप्चर कीं?

LAM
लैम

M3
एम3

TMC
टीएमसी

टीएमसी
टीएमसी

MCC
एमसीसी

Not Answered

Q.No: 48 [Click Here to Challenge Question No. 48](#)

What was a key equity-based goal of land reforms implemented after independence?

स्वातंत्रता के बाद लागू किए गए भूमि सुधारों का प्रमुख समता-आधारित लक्ष्य क्या था?

Import substitution
आयात प्रतिस्थापन

Expansion of credit to industries
उद्योग क्षेत्र को ऋण सुविधा का विस्तार

Abolition of intermediaries and land ceiling laws
विचोषियों और भूमि हदबंदी कानूनों का उन्मूलन

Encouragement to zamindars
ज़मींदारों को प्रोत्साहन

Not Answered

Q.No: 49 [Click Here to Challenge Question No. 49](#)

Economic reforms in India were introduced in which year?

भारत में आर्थिक सुधार किस वर्ष शुरू किए गए थे?

1991
1991

1991
1991

1984
1984

2001
2001

1977
1977

Not Answered

Q.No: 50 [Click Here to Challenge Question No. 50](#)

What does Article 356 empower the President to do, and what are its constitutional safeguards?

अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति को क्या करने का अधिकार देता है, तथा इसके संवैधानिक सुरक्षा उपाय क्या हैं?

Dismiss Parliament; no further approval required
संसद भंग; आगे अनुमोदन की आवश्यकता नहीं

Dismiss State government; needs approval within two months
राज्य सरकार को बर्खास्त करना; दो महीनों के भीतर अनुमोदन आवश्यक होता है।

Declare Financial Emergency; approval by Rajya Sabha
वित्तीय आपातकाल की घोषणा; राज्यसभा की मजूरी

Suspend Fundamental Rights; needs Supreme Court approval
मौलिक अधिकारों को निलंबित करें; सर्वोच्च न्यायालय की मजूरी की आवश्यकता

Not Answered

Exam Level	: SSC CGL Tier 1
Test Date	: 26 Sep 2025
Test Time and Shift	: 09:00 AM (Shift-1)

Wrong Option selected Correct Option Not Answered

Undertaking by the candidate :
I acknowledge that this saved question paper is for my personal use and self-analysis only. I understand that sharing, distributing, or using it for commercial or any other purposes is strictly prohibited and may lead to legal action as per applicable acts, rules and regulations.

Note:
The candidates may note that in the challenge module the sequence of the questions and the options may be different from how it appeared during the examination. This is because in the challenge module the sequence of the questions as well as the answers will be the same for all the candidates who appeared in a particular shift while during the actual examination these sequences were different for different candidates. However the answer key selected by the candidates during the examination will exactly be reflected in the challenge module.

- [Click Here for PART-A](#)
- [Click Here for PART-B](#)
- [Click Here for PART-C](#)
- [Click Here for PART-D](#)

PART-C (Quantitative Aptitude)

Q.No: 51 If the radius of a cylinder is halved, what happens to its volume (assuming height remains constant)?
यदि किसी बेलन की त्रिज्या आधी कर दी जाए, तो उसका आयतन क्या होगा (सह मानते हुए कि ऊंचाई स्थिर रहेगी)?
Volume is halved
आयतन आधा रह गया
Volume is doubled
आयतन दोगुना हो गया है
Volume becomes one-fourth
आयतन एक-चौथाई हो जाता है
Volume remains the same
आयतन वही रहता है

Q.No: 52 What is the least square number that is divisible by 8, 12, and 20?
बहुत सबसे छोटी वर्ग संख्या कौन सी है जो 8, 12 और 20 से विभाज्य है?
3600
3600
4000
4000
1000
1000
5600
5600

Q.No: 53 If the amount is Rs. 600 and the Principal is Rs. 450, which is compounded yearly for 1 year, calculate the rate of interest.
अगर राशि 600 रुपये है और मूलधन 450 रुपये है, जो 1 वर्ष के लिए वार्षिक रूप से संयोजित होता है, तो ब्याज दर की गणना करें।
40%
40%
45%
45%
33.33%
33.33%
35%
35%

Q.No: 54 If P = Rs. 1,500, R = 8.5%, and T = 2.5 years, find the simple interest.
अगर P = 1,500 रुपये, R = 8.5%, और T = 2.5 वर्ष, तो साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए।
Rs. 315
315 रुपये
Rs. 310
310 रुपये
Rs. 318.75
318.75 रुपये
Rs. 320
320 रुपये

Q.No: 55 A person crosses a 700 m long street in 5 minutes. What is his speed in km per hour?
एक व्यक्ति 700 मीटर लंबी सड़क 5 मिनट में पार करता है। उसकी गति किमी प्रति घंटे में क्या है?
8.3 किमी/घंटा
8.3 किमी/घंटा
8.4 किमी/घंटा
8.4 किमी/घंटा
8 किमी/घंटा
8 किमी/घंटा
5.4 किमी/घंटा
5.4 किमी/घंटा

Q.No: 56 A hollow rectangular parallelepiped has external dimensions 12 cm × 10 cm × 8 cm and a thickness of 1 cm. Find its volume.
एक खोखले आयताकार समांतर चतुर्भुज के बाह्य आयाम 12 सेंटीमीटर × 10 सेंटीमीटर × 8 सेंटीमीटर तथा मोटाई 1 सेंटीमीटर है। इसका आयतन ज्ञात कीजिए।
672 cm³
672 घन सेंटीमीटर
720 cm³
720 घन सेंटीमीटर
480 cm³
480 घन सेंटीमीटर
832 cm³
832 घन सेंटीमीटर

Q.No: 57 A sector of radius 14 cm has an area of 154 cm². Find the angle of the sector.
14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है। त्रिज्यखंड का कोण ज्ञात कीजिए।
90°
90°
120°
120°
45°
45°
75°
75°

Q.No: 58 The difference between 20% of a number and 10% of the same number is 120. What is the number?
किसी संख्या के 20% और उसी संख्या के 10% के बीच का अंतर 120 है। वह संख्या क्या है?
1000
1000
1100
1100
1200
1200
1400
1400

Q.No: 59 The average age of 10 students in a class increases by 1 year when a 30-year-old teacher joins them. What was the original average age of the students?
एक कक्षा में 10 छात्रों की औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है जब एक 30 वर्षीय शिक्षक उनके साथ जुड़ता है। छात्रों की मूल औसत आयु क्या थी?
18
18
19
19
20
20
21
21

Q.No: 60 A buyer gets two successive discounts of 20% and 10% on a Rs. 1000 item. What is the price paid?
एक खरीदार को 1000 रुपये की वस्तु पर 20% और 10% की दो क्रमिक छूट मिलती है। भुगतान की गई कीमत क्या है?
Rs. 700
700 रुपये
Rs. 720
720 रुपये
Rs. 740
740 रुपये
Rs. 750
750 रुपये

Q.No: 61 A container has 60 litres of a mixture of acid and water in the ratio 7:3. 20% of the mixture is taken out and replaced with water. This operation is repeated once more. What is the final percentage of acid in the mixture?
एक बर्तन में 7:3 के अनुपात में अम्ल और पानी का 60 लीटर मिश्रण है। मिश्रण का 20% निकालकर पानी से बदल दिया जाता है। यह प्रक्रिया एक बार फिर दोहराई जाती है। मिश्रण में अम्ल का अंतिम प्रतिशत क्या है?
44.8%
44.8%
51.2%
51.2%
53.7%
53.7%
56.8%
56.8%

Q.No: 62 The efficiency of A, B and C is 2 : 3 : 5. A alone can complete the work in 40 days. They all worked together for 5 days and then C left the work. In how many days can A and B together complete the remaining work?
A, B और C की दक्षता 2 : 3 : 5 है। A अकेले एक काम को 40 दिनों में पूरा कर सकता है। वे सभी 5 दिनों तक एक साथ काम करते हैं और फिर C काम छोड़ देता है। A और B मिलकर शेष काम कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं?
12 days
12 दिन
10 days
10 दिन
8 days
8 दिन
6 days
6 दिन

Q.No: 63 A triangular prism has base side lengths 5 cm, 6 cm, and 7 cm and height 10 cm. What is its lateral surface area?
एक त्रिभुजाकार प्रिज्म के आधार की भुजाओं की लंबाई 5 सेमी, 6 सेमी और 7 सेमी तथा ऊंचाई 10 सेमी है। इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है?
180 cm²
180 सेमी²
160 cm²
160 सेमी²
150 cm²
150 सेमी²
140 cm²
140 सेमी²

Q.No: 64 A cone of radius 9 cm and height 12 cm is cut into two parts by a plane parallel to its base, at a height of 4 cm from the vertex. Find the volume of the frustum formed.
9 सेंटीमीटर त्रिज्या और 12 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु को उसके आधार के समांतर एक तल द्वारा, शीर्ष से 4 सेंटीमीटर ऊंचाई पर, दो भागों में काटा जाता है। बने त्रिज्यक का आयतन ज्ञात कीजिए।
432π cm³
432π घन सेंटीमीटर
576π cm³
576π घन सेंटीमीटर
648π cm³
648π घन सेंटीमीटर
312π cm³
312π घन सेंटीमीटर

Not Answered

Q.No: 65 If $3 \cot A = 4$, then find the value of $(3 \sin A - 4 \cos A)$.
यदि $3 \cot A = 4$ है, तो $(3 \sin A - 4 \cos A)$ का मान ज्ञात कीजिए।
 $\frac{7}{25}$
 $\frac{7}{25}$
 $-\frac{7}{25}$
 $-\frac{7}{25}$
 $\frac{-2}{25}$
 $\frac{-2}{25}$
 $\frac{2}{5}$
 $\frac{2}{5}$
 $\frac{2}{5}$
 $\frac{2}{5}$
 $\frac{2}{5}$
 $\frac{2}{5}$

Q.No: 66 Convert 1.5 radians to degrees.
1.5 रेडियन को डिग्री में बदलें।
90.56°
90.56°
120°
120°
85.94°
85.94°
180°
180°

Q.No: 67 If $\sin x = \cos(3x - 20^\circ)$, what is the value of x?
यदि $\sin x = \cos(3x - 20^\circ)$ है, तो x का मान क्या है?
25°
25°
27.5°
27.5°
30°
30°
35.8°
35.8°

Q.No: 68 In a right triangle, one of the acute angles is 30°. What is the measure of the exterior angle at the right-angled vertex?
एक समकोण त्रिभुज में, एक न्यून कोण 30° का है। समकोण शीर्ष पर बाह्य कोण का माप क्या है?
30°
30°
60°
60°
120°
120°
90°
90°

Q.No: 69 A triangle with all its angles less than 90° has its Orthocenter located where?
एक त्रिभुज जिसके सभी कोण 90° से कम हैं, उसका संकेन्द्र कहाँ स्थित होगा?
Inside the triangle.
त्रिभुज के अंदर.
Outside the triangle.
त्रिभुज के बाहर.
On one of the sides of the triangle.
त्रिभुज की एक भुजा पर।
On one of the vertices of the triangle.
त्रिभुज के किसी एक शीर्ष पर।

Q.No: 70 Rationalize:
 $\frac{\sqrt{2}-\sqrt{3}}{\sqrt{2}+\sqrt{3}}$
रैशियलकरण कीजिए।
 $\frac{\sqrt{2}-\sqrt{3}}{2}$
 $\frac{5+2\sqrt{6}}{2}$
 $\frac{5+2\sqrt{6}}{2}$
 $\frac{-5-2\sqrt{6}}{2}$
 $\frac{-5-2\sqrt{6}}{2}$
 $\frac{5-2\sqrt{6}}{2}$
 $\frac{5-2\sqrt{6}}{2}$
 $\frac{-5+2\sqrt{6}}{2}$
 $\frac{-5+2\sqrt{6}}{2}$

Q.No: 71 In triangle ABC, DE is drawn parallel to BC, intersecting AB and AC at D and E respectively. If AD=3, DB=6, and AE=4, find EC.
त्रिभुज ABC में, DE, BC के समांतर खींची गई है जो AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करती है। यदि AD=3, DB=6, और AE=4 है, तो EC ज्ञात कीजिए।
4
4
4
6
6
6
8
8
8
2
2

Q.No: 72 If the angle subtended by arc AB at the center is 140°, what is the reflex angle made by this arc at the center?
यदि चाप AB द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण है 140°, तो इस चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया प्रतिवर्ती कोण क्या है?
220°
220°
140°
140°
240°
240°
280°
280°

Q.No: 73 If $\tan A + \sec A = 3$, find $\tan A$.
यदि $\tan A + \sec A = 3$, तो $\tan A$ ज्ञात कीजिए।
 $\frac{1}{2}$
 $\frac{1}{2}$
 $\frac{3}{2}$
 $\frac{3}{2}$
 $\frac{4}{3}$
 $\frac{4}{3}$
 $\frac{5}{4}$
 $\frac{5}{4}$
 $\frac{2}{3}$
 $\frac{2}{3}$
Not Answered

Q.No: 74 In a circle of radius r, a chord subtends an angle θ (in radians) at the center. Which expression represents the length of the minor arc?
त्रिज्या r वाले एक वृत्त में, एक जीवा केंद्र पर θ (रेडियन में) कोण अंतरित करती है। कौन सा व्यंजक लघु चाप की लंबाई को दर्शाता है?
r θ
r θ
 $\frac{r}{2}$
 $\frac{r}{2}$
 $\frac{2r \sin \frac{\theta}{2}}{2}$
 $\frac{2r \sin \frac{\theta}{2}}{2}$
 $\frac{2r \sin \theta}{2}$
 $\frac{2r \sin \theta}{2}$

Q.No: 75 A, B, and C together can complete a task in 6 days. If A alone takes 12 days and B alone takes 18 days, how long will C alone take?
A, B और C मिलकर एक काम 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अगर A अकेले 12 दिन और B अकेले 18 दिन लेता है, तो C अकेले कितना समय लेगा?
19 days
19 दिन
30 days
30 दिन
12 days
12 दिन
36 days
36 दिन

Exam Level	: SSC CGL Tier 1
Test Date	: 26 Sep 2025
Test Time and Shift	: 09:00 AM (Shift-1)

Correct Option selected Wrong Option selected Correct Option Not Answered

PART-D (English Comprehension)

[Click Here to Challenge Question No. 76](#)

Q.No: 76 Read the passage and answer the questions:

Once relegated to the peripheries of legitimate professional discourse, **YouTube content creation** has metamorphosed into a formidable and highly nuanced career avenue. Far beyond the superficial glitz of viral videos, contemporary content creators must navigate a labyrinthine ecosystem encompassing algorithmic unpredictability, audience analytics, intellectual property considerations, and brand partnership intricacies.

The platform's democratized nature ostensibly offers an egalitarian promise — anyone with a camera and an idea can, theoretically, ascend to prominence. However, the reality is far more Darwinian. Success on YouTube today demands not only creative ingenuity but also a keen acumen in digital marketing, search engine optimization (SEO), and an ever-evolving understanding of platform-specific trends. Consistency in output, meticulous engagement with viewer communities, and adaptability to sudden policy shifts have become indispensable skills.

Moreover, the psychological ramifications of tethering one's livelihood to fluctuating view counts and algorithmic favor should not be underestimated. Burnout, imposter syndrome, and a precarious sense of self-worth plague many full-time creators. Unlike traditional careers, YouTube offers no institutional safety nets; creators must independently negotiate contracts, secure health benefits, and plan for financial volatility.

Nonetheless, for those who can master this digital alchemy, the rewards are substantial — both financially and creatively. The platform enables unparalleled autonomy, offering a direct conduit between creator and audience, unmediated by corporate gatekeepers. In an era increasingly defined by the decentralization of media, YouTube content creation is not merely a trend but a harbinger of the future of work.

Identify the grammatical function of the phrase "offering a direct conduit between creator and audience" in the sentence:

"The platform enables unparalleled autonomy, offering a direct conduit between creator and audience, unmediated by corporate gatekeepers."

Adjective Phrase

Present participial phrase functioning as an adverb

Noun phrase acting as an object

Absolute phrase modifying the subject

[Click Here to Challenge Question No. 77](#)

Q.No: 77 Read the passage and answer the questions:

Once relegated to the peripheries of legitimate professional discourse, **YouTube content creation** has metamorphosed into a formidable and highly nuanced career avenue. Far beyond the superficial glitz of viral videos, contemporary content creators must navigate a labyrinthine ecosystem encompassing algorithmic unpredictability, audience analytics, intellectual property considerations, and brand partnership intricacies.

The platform's democratized nature ostensibly offers an egalitarian promise — anyone with a camera and an idea can, theoretically, ascend to prominence. However, the reality is far more Darwinian. Success on YouTube today demands not only creative ingenuity but also a keen acumen in digital marketing, search engine optimization (SEO), and an ever-evolving understanding of platform-specific trends. Consistency in output, meticulous engagement with viewer communities, and adaptability to sudden policy shifts have become indispensable skills.

Moreover, the psychological ramifications of tethering one's livelihood to fluctuating view counts and algorithmic favor should not be underestimated. Burnout, imposter syndrome, and a precarious sense of self-worth plague many full-time creators. Unlike traditional careers, YouTube offers no institutional safety nets; creators must independently negotiate contracts, secure health benefits, and plan for financial volatility.

Nonetheless, for those who can master this digital alchemy, the rewards are substantial — both financially and creatively. The platform enables unparalleled autonomy, offering a direct conduit between creator and audience, unmediated by corporate gatekeepers. In an era increasingly defined by the decentralization of media, YouTube content creation is not merely a trend but a harbinger of the future of work.

In the sentence

"Far beyond the superficial glitz of viral videos, contemporary content creators must navigate a labyrinthine ecosystem encompassing algorithmic unpredictability..."

What is the function of the introductory phrase "Far beyond the superficial glitz of viral videos"?

Appositive phrase

Adverbial phrase modifying "navigate"

Prepositional phrase functioning as a noun

Absolute phrase with implied verb

[Click Here to Challenge Question No. 78](#)

Q.No: 78 Read the passage and answer the questions:

Once relegated to the peripheries of legitimate professional discourse, **YouTube content creation** has metamorphosed into a formidable and highly nuanced career avenue. Far beyond the superficial glitz of viral videos, contemporary content creators must navigate a labyrinthine ecosystem encompassing algorithmic unpredictability, audience analytics, intellectual property considerations, and brand partnership intricacies.

The platform's democratized nature ostensibly offers an egalitarian promise — anyone with a camera and an idea can, theoretically, ascend to prominence. However, the reality is far more Darwinian. Success on YouTube today demands not only creative ingenuity but also a keen acumen in digital marketing, search engine optimization (SEO), and an ever-evolving understanding of platform-specific trends. Consistency in output, meticulous engagement with viewer communities, and adaptability to sudden policy shifts have become indispensable skills.

Moreover, the psychological ramifications of tethering one's livelihood to fluctuating view counts and algorithmic favor should not be underestimated. Burnout, imposter syndrome, and a precarious sense of self-worth plague many full-time creators. Unlike traditional careers, YouTube offers no institutional safety nets; creators must independently negotiate contracts, secure health benefits, and plan for financial volatility.

Nonetheless, for those who can master this digital alchemy, the rewards are substantial — both financially and creatively. The platform enables unparalleled autonomy, offering a direct conduit between creator and audience, unmediated by corporate gatekeepers. In an era increasingly defined by the decentralization of media, YouTube content creation is not merely a trend but a harbinger of the future of work.

What is the closest meaning of the word "labyrinthine" as used in the passage?

Superficial and obvious

Mysterious and confusingly complex

Predictable and linear

Structured and disciplined

Not Answered

[Click Here to Challenge Question No. 79](#)

Q.No: 79 Read the passage and answer the questions:

Once relegated to the peripheries of legitimate professional discourse, **YouTube content creation** has metamorphosed into a formidable and highly nuanced career avenue. Far beyond the superficial glitz of viral videos, contemporary content creators must navigate a labyrinthine ecosystem encompassing algorithmic unpredictability, audience analytics, intellectual property considerations, and brand partnership intricacies.

The platform's democratized nature ostensibly offers an egalitarian promise — anyone with a camera and an idea can, theoretically, ascend to prominence. However, the reality is far more Darwinian. Success on YouTube today demands not only creative ingenuity but also a keen acumen in digital marketing, search engine optimization (SEO), and an ever-evolving understanding of platform-specific trends. Consistency in output, meticulous engagement with viewer communities, and adaptability to sudden policy shifts have become indispensable skills.

Moreover, the psychological ramifications of tethering one's livelihood to fluctuating view counts and algorithmic favor should not be underestimated. Burnout, imposter syndrome, and a precarious sense of self-worth plague many full-time creators. Unlike traditional careers, YouTube offers no institutional safety nets; creators must independently negotiate contracts, secure health benefits, and plan for financial volatility.

Nonetheless, for those who can master this digital alchemy, the rewards are substantial — both financially and creatively. The platform enables unparalleled autonomy, offering a direct conduit between creator and audience, unmediated by corporate gatekeepers. In an era increasingly defined by the decentralization of media, YouTube content creation is not merely a trend but a harbinger of the future of work.

Choose the most appropriate antonym for the word "harbinger" as used in the last line of the passage.

Catalyst

Precursor

Follower

Trailblazer

[Click Here to Challenge Question No. 80](#)

Q.No: 80 Read the passage and answer the questions:

Once relegated to the peripheries of legitimate professional discourse, **YouTube content creation** has metamorphosed into a formidable and highly nuanced career avenue. Far beyond the superficial glitz of viral videos, contemporary content creators must navigate a labyrinthine ecosystem encompassing algorithmic unpredictability, audience analytics, intellectual property considerations, and brand partnership intricacies.

The platform's democratized nature ostensibly offers an egalitarian promise — anyone with a camera and an idea can, theoretically, ascend to prominence. However, the reality is far more Darwinian. Success on YouTube today demands not only creative ingenuity but also a keen acumen in digital marketing, search engine optimization (SEO), and an ever-evolving understanding of platform-specific trends. Consistency in output, meticulous engagement with viewer communities, and adaptability to sudden policy shifts have become indispensable skills.

Moreover, the psychological ramifications of tethering one's livelihood to fluctuating view counts and algorithmic favor should not be underestimated. Burnout, imposter syndrome, and a precarious sense of self-worth plague many full-time creators. Unlike traditional careers, YouTube offers no institutional safety nets; creators must independently negotiate contracts, secure health benefits, and plan for financial volatility.

Nonetheless, for those who can master this digital alchemy, the rewards are substantial — both financially and creatively. The platform enables unparalleled autonomy, offering a direct conduit between creator and audience, unmediated by corporate gatekeepers. In an era increasingly defined by the decentralization of media, YouTube content creation is not merely a trend but a harbinger of the future of work.

Which of the following best captures the primary tension described in the passage?

The tension between traditional media and decentralized platforms

The tension between the glamorized perception of content creation and its actual challenges

The tension between corporate sponsorships and independent artists

The tension between financial rewards and creative compromises

Not Answered

[Click Here to Challenge Question No. 81](#)

Q.No: 81 What does the phrase "back to the drawing board" mean?

To start over after a failure

To complete a task successfully

To take a short break from work

To finalize a project

[Click Here to Challenge Question No. 82](#)

Q.No: 82 Fill in the blank with the correctly spelt word.

The leader's _____ behavior eventually alienated even his staunchest supporters.

imperious

imparious

imperious

impirious

[Click Here to Challenge Question No. 83](#)

Q.No: 83 Select the most appropriate synonym of the given word: **CAVIL**

Praise

Quibble

Approve

Ignore

Not Answered

[Click Here to Challenge Question No. 84](#)

Q.No: 84 Select the most appropriate antonym of the given word, **Munificent**

Lavish

Generous

Stingy

Benevolent

[Click Here to Challenge Question No. 85](#)

Q.No: 85 Choose the correct meaning of idiom: **In the bud**

In the early or developing stage

On the verge of destruction

During a time of celebration

In the final phase of execution

[Click Here to Challenge Question No. 86](#)

Q.No: 86 Select the **correct spelling** of a word meaning 'to make less severe or intense'.

Mitigate

Mittigate

Mitaggate

Mittagete

[Click Here to Challenge Question No. 87](#)

Q.No: 87 Spot the **correct spelling** of "a person who collects or studies coins and medals".

Numismatist

Numesmatist

Numismatisht

Numismittist

[Click Here to Challenge Question No. 88](#)

Q.No: 88 Choose the correct **one-word substitute** for: 'A large group of people moving together'.

Convoy

Crowd

Swarm

Horde

[Click Here to Challenge Question No. 89](#)

Q.No: 89 Choose the correct **one-word substitute** for: 'A person who talks in sleep.'

Somniloquist

Hypochondriac

Somnambulist

Insomniac

[Click Here to Challenge Question No. 90](#)

Q.No: 90 Fill in the blank with the most appropriate phrasal verb: The department was asked to _____ the outdated protocol.

phase out

hand off

come across

play down

[Click Here to Challenge Question No. 91](#)

Q.No: 91 Find the part of the sentence that contains an error: The analysts have given (1) access to the longitudinal data sooner, (2) they could have refined their projections (3) with greater accurateness, (4)

(1)

(2)

(3)

(4)

[Click Here to Challenge Question No. 92](#)

Q.No: 92 Change the following from active to passive: They don't allow smoking here.

Smoking hasn't been allowed here.

Smoking isn't allowed here.

Smoking wasn't allowed here.

Smoking shouldn't be allowed here.

[Click Here to Challenge Question No. 93](#)

Q.No: 93 Select the sentence containing the homonym of the highlighted word: He made a **fine** distinction between the two theories.

The police issued him a parking fine.

The fabric was of fine quality.

She delivered a fine performance.

His fine coat kept him warm.

[Click Here to Challenge Question No. 94](#)

Q.No: 94 Convert the sentence provided below from its passive voice structure to an active voice structure: The candidates were found to have been submitting forged documents during verification.

The verification process found the candidates had submitted forged documents.

It was found that forged documents had been submitted by candidates.

The candidates were found submitting forgeries, as verified.

Officials found that the candidates had been submitting forged documents.

[Click Here to Challenge Question No. 95](#)

Q.No: 95 Choose the most suitable option to replace the highlighted part of the sentence: He is so weak, **to lift the box**.

that he cannot lift the box

and he lifts the box

that he lifts the box

that he could lift the box

[Click Here to Challenge Question No. 96](#)

Q.No: 96 Choose the most suitable option to replace the highlighted part of the sentence: He is **junior than me** in service.

junior for me

more junior than me

junior to me

junior than I

[Click Here to Challenge Question No. 97](#)

Q.No: 97 A sentence is provided in direct speech. From the four given options, choose the one that most accurately conveys the sentence in its corresponding indirect speech. The botanist sighed that the rare orchid had germinated, only to succumb to a latent fungal blight.

The botanist sighed, "The rare orchid did germinate, only to succumb to a latent fungal blight."

The botanist sighed, "A rare orchid had germinated only to succumb to a latent fungal blight."

The botanist sighed, "The rare orchid germinated, only to succumb to a latent fungal blight."

The botanist sighed, "Rare orchid germinates but succumbs to fungus."

[Click Here to Challenge Question No. 98](#)

Q.No: 98 A sentence is provided in direct speech. From the four given options, choose the one that most accurately conveys the sentence in its corresponding indirect speech. John said, "I shall return soon."

John said he will return soon.

John said he would return soon.

John said he shall return soon.

John said he returns soon.

[Click Here to Challenge Question No. 99](#)

Q.No: 99 Rearrange the following sentences in correct order to make a logical passage: 1. The project was reviewed the proposal. 2. Adjustments were made to improve its feasibility. 3. A budget was created based on the revised proposal. 4. The proposal was then submitted for approval.

1-2-4-3

3-2-4-1

4-3-2-1

2-4-1-3

[Click Here to Challenge Question No. 100](#)

Q.No: 100 Rearrange the following sentences to form a meaningful passage: 1. The blueprint is finalized after approval from stakeholders. 2. First, a basic framework is proposed. 3. Then revisions are made after discussions. 4. Finally, execution begins as per plan.

2-1-3-4

1-3-2-4

2-3-1-4

3-2-1-4